

## मेरे दोस्त का हिन्दुस्तान सफ़र

राहुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। एक ही स्कूल में पढते हैं। तकरीबन एक ही उम्र के हैं। अपना खाली समय हमेशा एकसाथ बिताते हैं। राहुल के पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं। पेरिस में भारतीय दूतावास में काम करते हैं। राहुल की मां आफ्रिस नहीं जातीं। घर में रहकर अपने परिवार का ख्याल रखती हैं। राहुल का बड़ा भाई युनिवर्सिटी में मैनेजमेन्ट की पढाई कर रहा है। उनकी कोई बहन नहीं है। सब एकसाथ पेरिस के एक उपनगर में रहते हैं।

राहुल और उसका परिवार हर साल गरमी की छुट्टियों में भारत जाते हैं। वहां उनके बहुत से रिश्तेदार रहते हैं। कई दोस्त भी हैं। उनके साथ समय बिताना उन्हें बहुत पसन्द है।

पिछले साल वे हमेशा की तरह प्लेन लेकर दिल्ली गए। उड़ान लंबी थी और उन्हें पहुंचने में बहुत समय लगा। उसके पिताजी काफ़ी देर सोए पर राहुल बिल्कुल नहीं सो पाया। उसने एक के बाद एक दो फ़िल्में देखीं। ज़रा देर एक कहानी की किताब पढी। दूसरे मुसाफ़िरों से गपशप भी की।

दिल्ली देश की राजधानी है। बहुत बड़ा शहर है। वहां देखने लायक कई चीज़ें हैं : पुराने किले, मंदिर और मस्जिदें, संग्रहालय वगैरह...। राहुल की मां ने बाज़ार से अपने लिए ढेर सारी चीज़ें खरीदीं। उन्हें शापिंग करने का बड़ा शौक है। राहुल के भाई ने अपने फ़्रांसीसी दोस्तों के लिए कुछ तोहफ़े खरीदे। राहुल दो बार अपने पिताजी के साथ दिल्ली के पार्कों में घूमने गया। वहां लोग क्रिकेट खेल रहे थे और गाएं खुलेआम घास चर रही थीं ! उसे नई मेट्रो भी बहुत अच्छी लगी। कितनी साफ़ थी और एकदम टाइम पर चलती थी ! मगर उसे वहां का मौसम बिल्कुल पसन्द नहीं आया।

राहुल के रिश्तेदारों ने उसे अपने घर बुलाया। उसके चाचा-चाची ने उसे कई नए तोहफ़े दिए। मामा-मामी ने भी उनका खूब स्वागत किया। राहुल अपने दादा-दादी और नाना-नानी से मिलकर बहुत खुश हुआ। उनके यहां उसने तरह तरह के पकवान खाए। राहुल को कुछ नए औए मज़ेदार खिलोने भी मिले।

जब छुट्टियां खत्म हुईं, राहुल बहुत दुखी हुआ। वह पेरिस लौटना नहीं चाहता था। कुछ दिन और दिल्ली रहना चाहता था। सभी लोग उन्हें छोड़ने हवाई अड्डे पर आए। राहुल और उसकी मां दोनों बेचारे बहुत रोए।

अगले साल राहुल फिर भारत लौटेगा। उसके माता-पिता भी उसके साथ जाएंगे। वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए बहुत सा सामान ले जाएंगे। गरमी से बचने के लिए गाडी में पहाड़ों की सैर भी करेंगे !